

प्रेस नोट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 28/08/2022 को पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन ,अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चंद रावत, क्षेत्राधिकारी इटवा श्री हरीश चन्द्र के कुशल निर्देशन में प्रभारी थानाध्यक्ष मिश्रौलिया श्री घनश्याम सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28/08/2022 को मुकदमाअपराध संख्या 161 / 22 धारा 306 /354 /452 आईपीसी के वांछित अभियुक्त मुसम्मी-- हजारी पुत्र शंकर साकिन बनकटा पश्चिम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर थाना को बेलवा तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 01.उ0नि0 हरिरामभारती
02. का0 अर्जुन यादव

प्रेस नोट- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 28.08.2022

01वारण्टी को गिरफ्तार कर,माननीय न्यायालय भेजा गया

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में श्री गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर* के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.08.2022 को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण:-

01. साजू पुत्र फत्ते मोहम्म उम्र 28 वर्ष
- सा० यादव टोला डुमरियागंज थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. SI श्री विनय कुमार यादव
 - 02.C धर्मेन्द्र कुमार
 - 03 C रोहित यादव
- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थ नगर।

प्रेस नोट- दिनांक 28.08.2022

महिला सशक्तीकरण के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा गरीब असहाय वृद्ध महिला का सहयोग कर परिजन से मिलाया गया।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़, श्री पंकज कुमार पाण्डेय के निर्देशन में महिला बीट पुलिस अधिकारी, एण्टी रोमियो चेकिंग के दौरान आज दिनांक 28/08 /2022 को सुबह करीब 07:00 बजे तहसील बाउंड्री के पास बारिश में भीग रहीं एक वृद्ध महिला को थाना शोहरतगढ़ पर नियुक्त आरक्षी अशोक पासवान, महिला आरक्षी शिखा सिंह तथा महिला आरक्षी प्रिया शुक्ला द्वारा कर्तव्य एवं मानवता का परिचय देते हुए प्रेमपूर्वक वृद्ध महिला को थाना स्थानीय पर लाया गया, जहाँ पर महिला आरक्षी शिखा सिंह तथा महिला आरक्षी प्रिया शुक्ला द्वारा प्रेमपूर्वक व तनमयता के साथ स्नान कराकर जलपान कराने के पश्चात परिजन को बुलाकर सुपुर्द किया गया, उक्त वृद्ध महिला थाना शोहरतगढ़ अंतर्गत एक गाँव से दिनांक 25/08/2022 से घर से कहीं क्षेत्र में चली गयीं थीं। जिस बात को लेकर आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास तथा भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है।

प्रेस नोट:दिनांक 28.08.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 28.08.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार यादव मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा चेकिंग के दौरान यातायात नियम का पालन न करने वाले 52 वाहनों से 46500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट दिनांक 28.08.2022

ऑपरेशन जनसंवाद

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षगण की उपस्थिति में स्थानीय पुलिस बल एवं थानाक्षेत्र के नागरिक के बीच जन-संवाद हेतु चौपाल लगाकर ग्राम प्रधान व ग्राम के सम्भ्रांत व्यक्तियों के समक्ष, आम-जनमानस से संपर्क कर संवाद किया गया। लोगों की समस्याओं को सुना गया, उत्तर प्रदेश शासन व उच्चाधिकारीगण के आदेश-निर्देश से समस्त को अवगत कराया गया।

प्रेस नोट दिनांक 28-08-2022

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 28-08-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 03 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया। तथा 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है। 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म०हे०मु० सविता सिंह, महिला आरक्षी प्रियम्बदा सिंह, सिंह, महिला आरक्षी नेहा सिंह, महिला आरक्षी प्रतीची शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. रेहाना पत्नी साहिल साकिन चरियनवा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर